



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 13—जून 19, 2009 (ज्येष्ठ 23, 1931)

No. 24]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 13—JUNE 19, 2009 (JYAISTHA 23, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2009

थल सेना शाखा

इलेक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक अभियंता कोर

सं. 332, दिनांक 08 मई 2009—राष्ट्रपति महोदय, श्री प्रवीन्द्र प्रताप सिंह को दिनांक 31 मार्च 2008 (पूर्वाह्न)से ईएमई कोर रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी अभियन्ता के पद पर नियुक्त करते हैं।

वह दो वर्ष की परख अवधि पर रहेंगे।

एन के कश्मीरा  
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 333, दिनांक 08 मई 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

सूबेदार आरमोर के रैंक में

नायब सूबेदार वाचस्पती कुमार द्विवेदी (जेसी-758750डब्ल्यू),  
07 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार रमेश चंद्र जोशी (जेसी-760107एल), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार आरटीजन (ईसी) के रैंक में

नायब सूबेदार सी अजय सिंह नारायण सिंह (जेसी-760104एक्स),  
01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार हरे राम सिंह (जेसी-760097एम), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार राम कृष्ण यादव (जेसी-760096के), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार रमेश चंद्र (जेसी-759785वाई), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार रेशम सिंह (जेसी-758078एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार जय प्रकाश (जेसी-759921के), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार कुलदीप कुमार (जेसी-755729एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार आधेश कुमार (जेसी-755731ए), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार नानी गोपाल देव (जेसी-755422एक्स), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार भवानी सिंह राठौर (जेसी-755622एन), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-755420एम), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-755791पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार बिश्वनाथ घोष (जेसी-755730एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार विनय कुमार (जेसी-755794एच), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

नायब सूबेदार नरेश चन्द्र मालो (जेसी-760565एफ), 06 अक्टूबर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार दुरबीन सिंह (जेसी-760563डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार श्री कांत कुशवाहा (जेसी-760509एच), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार सूबे राम शर्मा (जेसी-760660एन), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार सत्य नारायण (जेसी-760508ए), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार कमलजीत सिंह (जेसी-760715एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार अवदेश सिंह (जेसी-760110एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार विनोद कुमार रावत (जेसी-760430ए), 01 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 \*

सूबेदार एसकेटी के रैंक में

नायब सूबेदार कुलेन्द्र सिंह (जेसी-755425एल), 04 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार शशंका रंजन दास (जेसी-755630एम), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार चरन जीत सिंह (जेसी-755631पी), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार रमेश चंद (जेसी-755968एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-755967पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार जगेश्वर यादव (जेसी-756071ए), 16 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

सूबेदार टेक के रैंक में

नायब सूबेदार विजय प्रसाद (जेसी-757904एल), 01 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 \*

नायब सूबेदार राम प्रकाश उपाध्याय (जेसी-758075पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार शशिकांत शुक्ला (जेसी-758014एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार गायकवाड शही जी यशवन्त (जेसी-758116एन), 11 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार प्रमोद राय (जेसी-758199के), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-758109एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार दीन दयाल (जेसी-757903एच), 04 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार अजित सिंह (जेसी-758175ए), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार उन्नी पी डी (जेसी-758108पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र दीक्षित (जेसी-758201डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राज कुमार दास (जेसी-758024एफ), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार हुकम सिंह रावत (जेसी-757922एन), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार कैलाश कुमार माहेश्वरी (जेसी-758010एफ), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार गोविन्दन कुन्नुमल (जेसी-758196डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार भास्करन ई (जेसी-758206पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार माता प्रसाद (जेसी-757913एम), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-757933ए), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार चित्त रंजन दास (जेसी-757961एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार अरविन्द कुमार शर्मा (जेसी-758103डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार पटेल (जेसी-758018एन), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार सिरिपरपु वेन्कटरमणा (जेसी-758054वाई), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार सतीश चंद्र (जेसी-758012एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार उमेश कुमार (जेसी-758015ए), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार गोकुला नंदा बिस्वाल (जेसी-758178एन), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार दामोदर राय (जेसी-758118वाई), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार महावीर प्रसाद (जेसी-758034एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार कृष्ण प्रताप सिंह (जेसी-758193एच), 13 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार पुश्कर सिंह (जेसी-758117डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार पतितपावन नायक (जेसी-758111पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार मंगेश गणपत चवन (जेसी-758072एफ), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार टेक एवीएन के रैंक में

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-757855एन), 01 सितम्बर 2008

\*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)।

एन, के, कश्मीरा  
अवर सचिव

## सेना विभाग

सं. 334, दिनांक 08 मई 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

## नियमित सेना

## इन्फैन्ट्री

## मद्रास रेजीमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुब्बाय्या टी (सं. 2594690ए अब जेसी-440089एन), 12 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सुनील कुमार के ए (सं. 2591543एम अब जेसी-440095एफ), 05 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रवी के पी (सं. 2592652एल अब जेसी-440096के), 05 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सूर्य कुमार एस (सं. 7430756के अब जेसी-440101के), 03 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार वेलागाचेरला नरासा रेड्डी (सं. 2592456एल अब जेसी-440053पी), 01 अगस्त 2008

हवलदार वालासा रमाना मूरती (सं. 2592467एक्स अब जेसी-440054एक्स), 01 अगस्त 2008

हवलदार बैजु जी (सं. 2594834एक्स अब जेसी-440068एक्स), 01 अगस्त 2008

हवलदार राज कुमार टी के (सं. 2592828एल अब जेसी-440009एल), 13 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार आर एम करुप्पाय्या (सं. 2593644वाई अब जेसी-440026एल), 11 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार वै अलेक्सान्डर (सं. 2593225एफ अब जेसी-440081एफ), 01 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सी माहादेवन (सं. 2589521पी अब जेसी-440076डब्ल्यू), 19 जुलाई 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार अय्यालूस्वामी एस (सं. 2592735डब्ल्यू अब जेसी-440092एन), 02 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार एम लोगनाथन (सं. 3391120एल अब जेसी-440100एफ), 15 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2008 से दी जायेगी)

## नियमित सेना इन्फैन्ट्री-जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

## नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार मोहम्मद यासिन पीर (सं. 9087227पी अब जेसी-593672वाई), 11 जुलाई 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 मई 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार बलकार राम (सं. 9087056एन अब जेसी-593673एफ), 19 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 27 मई 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद ईशफाक (सं. 9086967एक्स अब जेसी-593674के), 18 जुलाई 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जून 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मुशताक हुसैन (सं. 9087157एफ अब जेसी-593675एम), 27 जुलाई 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 15 जून 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सोम लाल (सं. 9087485पी अब जेसी-593676पी), 19 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 21 जून 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राम लाल (सं. 9088889के अब जेसी-593677एक्स), 19 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 02 जुलाई 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राज क्रिशन (सं. 9087304एक्स अब जेसी-593679एच), 29 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 24 मई 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार हक निवाज़ (सं. 9086965एम अब जेसी-593680एक्स), 23 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 27 मई 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार विजय कुमार सैनी (सं. 9088303एच अब जेसी-593681ए), 05 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 09 जून 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मुशताक अहमद भट (सं. 9088708एन अब जेसी-593682एच), 26 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार बलवान सिंह (सं. 9087318वाई अब जेसी-593683एल), 29 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अगस्त 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 9088379एच अब जेसी-593684एन),  
29 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अगस्त 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मंगल दास (सं. 9088590एच अब जेसी-593685डब्ल्यू),  
29 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अगस्त 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार तरशीम लाल (सं. 9088683एम अब जेसी-593686वाई),  
29 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अगस्त 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार जोगिन्दर लाल (सं. 9088692एन अब जेसी-593687एफ),  
29 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अगस्त 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार देव राज (सं. 9085339डब्ल्यू अब जेसी-593690एफ),  
29 जून 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जनवरी 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार जोगिंदर सिंह (सं. 9087136एल अब जेसी-593691के),  
22 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 फरवरी 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 9087312एक्स अब जेसी-593692एम),  
11 जून 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 मार्च 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद इक़बाल (सं. 9088185ए अब जेसी-593693पी),  
05 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 18 जून 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार क्रिशन चन्द (सं. 9088304एल अब जेसी-593694एक्स),  
01 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद बशिर (सं. 9088248एक्स अब जेसी-593695ए),  
01 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार चमैल सिंह (सं. 9089585वाई अब जेसी-593698एन),  
30 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 21 जून 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 9089325एन अब जेसी-593699डब्ल्यू),  
30 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद शेफी बानि (सं. 9088608एच अब जेसी-593700ए),  
30 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद रफिक (सं. 9087705एन अब जेसी-593701एच),  
04 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अगस्त 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद शफि (सं. 9089046एच अब जेसी-593702एल),  
01 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 सितम्बर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 9087476एन अब जेसी-593703एन),  
01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 03 सितम्बर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार बाल क्रिशन (सं. 9087620एक्स अब जेसी-593704डब्ल्यू),  
01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार गुलज़ारी लाल (सं. 9088289एफ अब जेसी-593705वाई),  
01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद अकबर शेख (सं. 9088542एक्स अब जेसी-  
593706एफ), 01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार तालिब दिन (सं. 9088620के अब जेसी-593707के),  
13 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मुसताक हुसैन (सं. 9087326एक्स अब जेसी-593708एम),  
22 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार परलाध सिंह (सं. 9088056ए अब जेसी-593709पी),  
15 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार तरसेम लाल सैनी (सं. 9086740के अब जेसी-593710के),  
14 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुबाश चौधरी (सं. 9087051पी अब जेसी-593711एम),  
14 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राज कुमार (सं. 9088873वाई अब जेसी-593712पी),  
20 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार चैन सिंह (सं. 9088983एन अब जेसी-593713एक्स),  
20 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद मकबूल भट (सं. 9088432एच अब जेसी-  
593714ए), 01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार हरदेव सिंह (सं. 9089638एम अब जेसी-593715एच),  
01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद गफूर (सं. 9088321एल अब जेसी-593716एल),  
01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार गुरदयाल सिंह (सं. 9087754एम अब जेसी-593717एन),  
01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 9086957एन अब जेसी-593718डब्ल्यू),  
30 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 20 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार कुलदेव सिंह (सं. 9088389एम अब जेसी-593719वाई),  
15 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 नवम्बर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

कुमाऊं रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार (लिपिक) रेशम लाल (सं. 4180852डब्ल्यू अब  
जेसी-540431एक्स), 02 जून 2008/01 जून 2008 \*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 जून 2008 से दी गई है)

हवलदार (लिपिक) विनोद कुमार शर्मा (सं. 4180918वाई अब  
जेसी-540432ए), 11 जून 2008/01 जून 2008 \*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 जून 2008 से दी गई है)

हवलदार (लिपिक) मोहन सिंह (सं. 4179956एच अब जेसी-  
540433एच), 01 जुलाई 2008

हवलदार (लिपिक) होशियार सिंह (सं. 4180031वाई अब जेसी-  
540450एच), 01 अगस्त 2008

हवलदार (लिपिक) चंचल सिंह (सं. 4180498के अब जेसी-  
540451एल), 01 अगस्त 2008

हवलदार (लिपिक) तेज बहादुर (सं. 4180503के अब जेसी-  
540452एन), 01 अगस्त 2008

हवलदार (लिपिक) अमर सिंह (सं. 4180486एम अब जेसी-  
540480ए), 08 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार (लिपिक) कुण्डल सिंह (सं. 4180626डब्ल्यू अब जेसी-  
540481एच), 06 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार (लिपिक) खीम सिंह मेहरा (सं. 4180733एक्स अब जेसी-  
540482एल), 07 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार (लिपिक) रघुनाथ पाण्डे (सं. 4180799एन अब जेसी-  
540483एन), 06 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार (लिपिक) राज पाल (सं. 2884097एम अब जेसी-  
540524एम), 15 दिसम्बर 2008/24 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 24 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार (लिपिक) बंशीधर बारिक (सं. 4180917डब्ल्यू अब जेसी-  
540525पी), 16 जनवरी 2009/01 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार नन्दन सिंह बसेरा (सं. 4180382एन अब जेसी-540506के),  
16 अक्टूबर 2008/09 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 09 सितम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार केदार सिंह (सं. 4178601एल अब जेसी-540507एन),  
23 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार दयाल सिंह (सं. 4179798वाई अब जेसी-540508पी),  
23 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार प्रकाश सिंह (सं. 4178859वाई अब जेसी-540509एक्स),  
24 नवम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 सितम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार मुकेश (सं. 4182767के अब जेसी-540510एम), 27 नवम्बर  
2008/01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार रघुबीर सिंह (सं. 2884126डब्ल्यू अब जेसी-540511पी),  
27 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार भगवान सिंह (सं. 4179942एच अब जेसी-540512एक्स),  
01 दिसम्बर 2008/02 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 02 अगस्त 2008 से दी गई है)

हवलदार देव दत्त सिंह यादव (सं. 4180456एक्स अब जेसी-540513ए),  
02 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार दिनेश सिंह यादव (सं. 4180851एल अब जेसी-540514एच),  
30 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार गिरधारी लाल यादव (सं. 4182152वाई अब जेसी-540515एल), 30 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4183467पी अब जेसी-540516एन), 29 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार ललित सिंह (सं. 4181546एल अब जेसी-540517डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार विजय सिंह (सं. 4179850डब्ल्यू अब जेसी-540518वाई), 02 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार जगत सिंह (सं. 4180033के अब जेसी-540519एफ), 04 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार सुखवीर सिंह (सं. 4182570एन अब जेसी-540520डब्ल्यू), 08 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार आनन्द सिंह फर्तियाल (सं. 4180671एच अब जेसी-540521वाई), 10 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार सुन्दर सिंह (सं. 4180582एफ अब जेसी-540522एफ), 19 दिसम्बर 2008/07 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 07 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार देवेन्द्रा प्रसाद (सं. 4183013एफ अब जेसी-540523के), 20 दिसम्बर 2008/11 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 11 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार लाल बहादुर (सं. 4180372के अब जेसी-540484डब्ल्यू), 15 अक्टूबर 2008/09 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 09 सितम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार गोविन्द सिंह (सं. 13615616एच अब जेसी-540494ए), 07 नवम्बर 2008/04 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 04 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार शेर सिंह (सं. 4179081एक्स अब जेसी-540495एच), 07 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार सरजु राम (सं. 4181161एन अब जेसी-540486एफ), 18 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार बाने सिंह (सं. 4181221एक्स अब जेसी-540487के), 18 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार श्री राम (सं. 4181223एच अब जेसी-540488एम), 18 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार सुन्दर सिंह (सं. 4178035डब्ल्यू अब जेसी-540492पी), 06 नवम्बर 2008/08 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 08 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार हरीश चन्द्रा जोशी (सं. 4178426एफ अब जेसी-540496एल), 09 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार तेज सिंह (सं. 4179021एच अब जेसी-540497एन), 09 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार महेश सिंह बिष्ट (सं. 4181628एन अब जेसी-540498डब्ल्यू), 09 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार गोविन्द सिंह (सं. 4180021पी अब जेसी-540499वाई), 09 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार मदन सिंह (सं. 4180651पी अब जेसी-540485वाई), 18 अक्टूबर 2008/20 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 20 सितम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार राजीव कुमार यादव (सं. 4182273ए अब जेसी-540501एल), 11 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार मुख्तियार सिंह (सं. 4180037ए अब जेसी-540490के),  
05 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार कतार सिंह (सं. 4180136एच अब जेसी-540491एम),  
05 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार बिरेन्द्र कुमार सिंह (सं. 4180957एक्स अब जेसी-540503डब्ल्यू), 17 नवम्बर 2008/28 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 28 सितम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार पुरन सिंह (सं. 4178531एक्स अब जेसी-540504वाई),  
17 नवम्बर 2008/26 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 26 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार गोविन्द बल्लभ (सं. 4180656एन अब जेसी-540500एच),  
10 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 4180414एल अब जेसी-540505एफ),  
17 नवम्बर 2008/03 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 03 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार देव सिंह (सं. 4180154एल अब जेसी-540493एक्स),  
06 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार कैलाश चन्द्रा (सं. 4178563ए अब जेसी-540489पी),  
23 अक्टूबर 2008/01 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अगस्त 2008 से दी गई है)

हवलदार त्रिलोक (सं. 4183162पी अब जेसी-540502एन), 14 नवम्बर  
2008/01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

पंजाब रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बाबा राम (सं. 2476091एच अब जेसी-430464ए),  
02 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार गुलजार सिंह सैनी (सं. 2478873एक्स अब जेसी-430465एच), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार मनोहर लाल (सं. 2480284ए अब जेसी-430466एल),  
02 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 2479388पी अब जेसी-430467एन),  
01 दिसम्बर 2008

हवलदार लखबीर सिंह (सं. 2479805डब्ल्यू अब जेसी-430455वाई),  
27 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार पवन कुमार (सं. 2482737वाई अब जेसी-430456एफ),  
21 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 2480426एम अब जेसी-430457के),  
20 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार कुलवन्त सिंह (सं. 2479121ए अब जेसी-430458एम),  
07 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार तीर्थ राम (सं. 2481783एफ अब जेसी-430459पी),  
01 दिसम्बर 2008

हवलदार सुखजिन्दर सिंह (सं. 2479835एन अब जेसी-430460के),  
01 दिसम्बर 2008

हवलदार मदन लाल (सं. 2479230एम अब जेसी-430461एम),  
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक जादवर सूमन्त प्रभू (सं. 2480702के अब जेसी-430454डब्ल्यू), 17 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार लिपिक नवीन कुमार पटनायक (सं. 2479917डब्ल्यू अब जेसी-430462पी), 04 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार लिपिक भूपिन्दर सिंह वर्मा (सं. 2478217डब्ल्यू अब जेसी-430463एक्स), 15 दिसम्बर 2008\*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार लिपिक अरुण कुमार सोफ्रेटस (सं. 15359334एक्स अब जेसी-430468डब्ल्यू), 02 जनवरी 2009\*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार लिपिक रामादासन एस एम (सं. 2479912एक्स अब जेसी-430469वाई), 01 जनवरी 2009

हवलदार लिपिक राजू एन (सं. 2480691एन अब जेसी-430470एन), 01 जनवरी 2009

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम क्रिशन कोन्डल (सं. 2478859एल अब जेसी-430471डब्ल्यू), 10 नवम्बर 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार शेर सिंह (सं. 2479246एक्स अब जेसी-430472वाई), 29 दिसम्बर 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार नरेश कुमार (सं. 2479206डब्ल्यू अब जेसी-430473एफ), 10 नवम्बर 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 2478578पी अब जेसी-430474के), 11 दिसम्बर 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार कुलजीत सिंह (सं. 2479095के अब जेसी-430475एम), 27 दिसम्बर 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 2478728ए अब जेसी-430476पी), 22 दिसम्बर 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 2478139के अब जेसी-430477एक्स), 24 दिसम्बर 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 2479755डब्ल्यू अब जेसी-430478ए), 01 जनवरी 2009

#### बिहार रेजिमेंट

#### नायब सूबेदार (जीडी/लिपिक) के रैंक में

हवलदार राम निवास सिंह यादव (सं. 4263590एफ अब जेसी-560104एन), 02 दिसम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर अनिल कुमार (सं. 4267318एम अब जेसी-560105डब्ल्यू), 11 दिसम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार सुरेंद्र प्रसाद यादव (सं. 4267333एफ अब जेसी-560106एच), 19 दिसम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार नरेंद्र चौबे (सं. 4265971एफ अब जेसी-560107एफ), 18 दिसम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार जय नाथ मेहली (सं. 4267760एक्स अब जेसी-560108के), 06 दिसम्बर 2008/26 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 26 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार बिल्लु सिंह (सं. 4264495एफ अब जेसी-560109एम), 14 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 4264989एल अब जेसी-560110एफ), 20 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार उमेश कुमार सिंह (सं. 4267343एल अब जेसी-560111के), 15 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार मेघनाथ सिंह (सं. 4264553ए अब जेसी-560112एम), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार/लिपिक राम उग्रह राम (सं. 15359617वाई अब जेसी-560113पी), 01 दिसम्बर 2008



हवलदार/लिपिक हरजीत सिंह (सं. 4265921डब्ल्यू अब जेसी-560114एक्स), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार/म्यूजिशियन शशि भूषण प्रसाद सिंह किरण (सं. 4263488वाई अब जेसी-560130पी), 10 जनवरी 2009/20 अगस्त 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 20 अगस्त 2008 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर श्री भगवान सिंह (सं. 4264255के अब जेसी-560131एक्स), 07 जनवरी 2009/05 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 05 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर कृष्णा कुमार मिश्रा (सं. 4264525एन अब जेसी-560132ए), 07 जनवरी 2009/05 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 05 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार विशनाथ मिन्ज (सं. 4268408ए अब जेसी-560133एच), 07 जनवरी 2009/05 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 05 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार कुलन होरो (सं. 4268414एन अब जेसी-560134एल), 07 जनवरी 2009/05 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 05 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार रत्नाकर हसदा (सं. 4266251एम अब जेसी-560135एन), 27 जनवरी 2009/15 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार पाण्डु राम पुर्ति (सं. 424270840ए अब जेसी-560136डब्ल्यू), 27 जनवरी 2009/15 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार ललित टोम्पो (सं. 4267387एच अब जेसी-560137वाई), 04 जनवरी 2009/12 दिसम्बर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 12 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर सुबन टोम्पो (सं. 4266053ए अब जेसी-560138एफ), 03 जनवरी 2009/14 दिसम्बर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 14 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार चारो उराव (सं. 4269371डब्ल्यू अब जेसी-560139के), 05 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009 से दी जाती है)

## डोगरा रेजिमेन्ट

### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लेख राज (सं. 3984009डब्ल्यू अब जेसी-520927एल), 02 जनवरी 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2008 से)

हवलदार सतीश कुमार (सं. 3988502एफ अब जेसी-520928एन), 27 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2008 से)

हवलदार सूरज प्रकाश (सं. 3988543एल अब जेसी-520929डब्ल्यू), 24 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

हवलदार स्वरूप सिंह (सं. 3986704के अब जेसी-520930एल), 06 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

हवलदार रमेश सिंह (सं. 3986429पी अब जेसी-520931एन), 17 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

हवलदार रमेश कुमार (सं. 3987420एम अब जेसी-520932डब्ल्यू), 17 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 3987712पी अब जेसी-520933वाई), 20 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

हवलदार बलि राम (सं. 3987744एक्स अब जेसी-520934एफ), 20 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

हवलदार प्रकाश चन्द (सं. 3987267एफ अब जेसी-520935के), 03 जनवरी 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से)

हवलदार छज्जू राम (सं. 3986815एफ अब जेसी-520936एम), 06 जनवरी 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 दिसम्बर 2008 से)

हवलदार बरजंग सिंह (सं. 3987385पी अब जेसी-520937पी),  
06 जनवरी 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से)

हवलदार केवल सिंह (सं. 3987780एच अब जेसी-520938एक्स),  
12 जनवरी 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से)

हवलदार विद्या सागर (सं. 3987877एन अब जेसी-520939ए),  
12 जनवरी 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से)

हवलदार मदन लाल ठाकुर (सं. 3988018पी अब जेसी-520940पी),  
12 जनवरी 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से)

हवलदार इन्द्र राज (सं. 3987090वाई अब जेसी-520909एच),  
05 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से)

हवलदार ज्ञान चन्द (सं. 3988270एन अब जेसी-520910एक्स),  
17 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 23 अगस्त 2008 से)

हवलदार दौलत राम (सं. 3988280एक्स अब जेसी-520911ए),  
12 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 29 अगस्त 2008 से)

हवलदार विजय कुमार (सं. 3987769के अब जेसी-520912एच),  
05 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से)

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 3987599एल अब जेसी-520913एल),  
10 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 3988204एल अब जेसी-520914एन),  
01 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह कनवर (सं. 3985824डब्ल्यू अब जेसी-  
520915डब्ल्यू), 05 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2008 से)

हवलदार प्रवीन सिंह (सं. 3180278के अब जेसी-520916वाई),  
28 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 3986543एम अब जेसी-520917एफ),  
12 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से)

हवलदार रमेश चन्द (सं. 3988275एम अब जेसी-520918के),  
13 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से)

हवलदार प्रदीप सिंह (सं. 3987011वाई अब जेसी-520919एम),  
18 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 3987064एक्स अब जेसी-520920एफ),  
18 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

हवलदार परमेश सिंह (सं. 3987209एक्स अब जेसी-520921के),  
18 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3987377डब्ल्यू अब जेसी-520922एम),  
18 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

हवलदार विजय कुमार (सं. 3391408एल अब जेसी-520923पी),  
01 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

हवलदार पदम सिंह (सं. 3985889के अब जेसी-520924एक्स),  
01 दिसम्बर 2008

हवलदार केवल कृष्ण (सं. 3986418एच अब जेसी-520925ए),  
01 दिसम्बर 2008

हवलदार मनजीत सिंह जमवाल (सं. 3988309पी अब जेसी-  
520926एच), 01 दिसम्बर 2008

असम रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार अशोक कुमार सिंघ (सं. 4360537ए अब जेसी-549695ए),  
26 सितम्बर 2008/01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार कुल बहादुर छेत्री (सं. 4358324एन अब जेसी-549705वाई),  
14 अगस्त 2008/01 जुलाई 2008 \*

हवलदार पूर्वा कलिदा (सं. 4360353एफ अब जेसी-549723एफ),  
05 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार नमेइरकम ओकेंद्रजित सिंघ (सं. 4360612वाई अब जेसी-  
549724के), 09 अक्टूबर 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार समरेन नारजरी (सं. 2591441डब्ल्यू अब जेसी-  
549727एक्स), 15 अक्टूबर 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार लालपियनथारा (सं. 4359539वाई अब जेसी-549728ए),  
01 अगस्त 2008

हवलदार एन जी नगेन्द्र सिंघा (सं. 4360282एल अब जेसी-  
549735डब्ल्यू), 27 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार दिलीप कुमार राय (सं. 4359275एच अब  
जेसी-549740एफ), 06 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार गोकुल धिंगिया (सं. 4360366वाई अब जेसी-549746एच),  
22 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार अब्दुल हुसैन चौधरी (सं. 4360607एन अब जेसी-  
549747एल), 22 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार त्रैलुक्का डेका (सं. 4360699एल अब जेसी-549748एन),  
22 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार एल श्याम कुमार सिंघ (सं. 4360732एक्स अब  
जेसी-549749डब्ल्यू), 22 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार टेक बहादुर थापा (सं. 4360890एम अब जेसी-549750एल),  
22 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार देवा कांता महंता (सं. 2591438डब्ल्यू अब जेसी-  
549753वाई), 12 नवम्बर 2008/14 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार भारत वैश्या (सं. 4359421एक्स अब जेसी-549760पी),  
03 दिसम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार दीपक ठाकुरी (सं. 4358391वाई अब जेसी-549772के),  
21 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार मान बहादुर थापा (सं. 4359167वाई अब जेसी-549774पी),  
21 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार सुशांत सिंहा (सं. 4358321ए अब जेसी-549775एक्स),  
27 दिसम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार जतिन बोरगोहाइन (सं. 4359622डब्ल्यू अब जेसी-  
549776ए), 10 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार धरनी डेका (सं. 4359686एफ अब जेसी-549778एल),  
03 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार धान बहादुर थापा (सं. 4359784एफ अब जेसी-549779एन),  
22 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार भवेश रोय (सं. 4359808ए अब जेसी-549780एच),  
22 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार प्रवीन कुमार दास (सं. 4359630पी अब जेसी-549781एल),  
05 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार डब्ल्यू ब्रोजेस्वर सिंघा (सं. 4360185एन अब जेसी-  
549782एन), 01 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार आई अशोक कुमार सिंघा (सं. 4360387पी अब जेसी-  
549784वाई), 01 दिसम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार अमलेश चंद्र नाथ (सं. 4359753एफ अब जेसी-549787एम),  
01 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

हवलदार धानेस्वर राय (सं. 4359877डब्ल्यू अब जेसी-549788पी),  
01 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

हवलदार बिशनु कटकी (सं. 4359662एक्स अब जेसी-549794एच),  
26 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

हवलदार प्रभात चंद्र दास (सं. 4360425ए अब जेसी-549796एन),  
01 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

हवलदार पुतुल चंद्र नाथ (सं. 4360723डब्ल्यू अब जेसी-  
549798वाई), 01 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

हवलदार सुरेश सरमा (सं. 4359818के अब जेसी-549808एक्स),  
06 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

हवलदार बंटू संगमा (सं. 4360052एक्स अब जेसी-549809ए),  
27 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

हवलदार चूरलेस यू मारक (सं. 4358925वाई अब जेसी-549810पी),  
01 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

हवलदार के अशिखो माओ (सं. 4359149डब्ल्यू अब जेसी-  
549811एक्स), 17 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

हवलदार परिमाल बरमन (सं. 4359745एच अब जेसी-549813एच),  
01 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार लिपिक के पद में

हवलदार/लिपिक झानू सिंघ यादव (सं. 4358382एक्स अब जेसी-  
549771एफ), 06 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार/लिपिक रवि चंद्रन आर (सं. 4359198वाई अब जेसी-  
549814एल), 01 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता)

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ओंकार सिंह (सं. 2682318एल अब जेसी-450574डब्ल्यू),  
12 मई 2008

हवलदार अनिल कुमार (सं. 2681653एच अब जेसी-450575वाई),  
01 जून 2008

हवलदार गोविन्द सिंह बानिवाल (सं. 2682327एम अब जेसी-  
450576एफ), 31 जुलाई 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार श्री भगवान (सं. 2680265वाई अब जेसी-450577के),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार बीरम प्रकाश (सं. 2683597एन अब जेसी-450578एम),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार विजय पाल सिंह (सं. 2680835के अब जेसी-450579पी),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार जगबीर सिंह (सं. 2681506ए अब जेसी-450580के),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार राज पाल सिंह (सं. 2680710एम अब जेसी-450581एम),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार बलजीत (सं. 2681352वाई अब जेसी-450582पी),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार अनंग पाल (सं. 2680846डब्ल्यू अब जेसी-450583एक्स),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार राकेश सिंह कुशवाह (सं. 2682038एक्स अब जेसी-450584ए), 01 सितम्बर 2008

हवलदार करमबीर सिंह (सं. 2680540एन अब जेसी-450585एच),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार देवी सिंह भाटी (सं. 2681252एन अब जेसी-450586एल),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार सूखा राम (सं. 2681984के अब जेसी-450587एन),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार शिव कुमार (सं. 8031598पी अब जेसी-450588डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार अशोक कुमार (सं. 2884360एम अब जेसी-450589वाई),  
16 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार योगीन्द्र नारायण सिंह (सं. 2680554एन अब जेसी-450590एन), 07 सितम्बर 2008

हवलदार अभय सिंह (सं. 2678991पी अब जेसी-450591डब्ल्यू),  
08 सितम्बर 2008

हवलदार माई राम (सं. 2680271एम अब जेसी-450592वाई),  
19 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक योगिन्द्र सिंह (सं. 2680323एक्स अब जेसी-450593एफ), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार/लिपिक शेख समीउल्लाह जाफरउल्लाह (सं. 15359222एक्स अब जेसी-450594के), 01 अक्टूबर 2008

पैराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अशोक कुमार पट्टनायक (सं. 13616445एन अब जेसी-413331एन), 24 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार मुनेश पाल सिंह (सं. 13617898एल अब जेसी-413332डब्ल्यू), 24 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार हुकम सिंह (सं. 13617990के अब जेसी-413333वाई),  
01 नवम्बर 2008

हवलदार मोरे मंसा राम जगन्नाथ (सं. 2788592एन अब जेसी-413335के), 07 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार भरत सिंह (सं. 4070096के अब जेसी-413336एम),  
01 अक्टूबर 2008

हवलदार नरेश कुमार (सं. 13617361एम अब जेसी-413337पी),  
20 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार झाबर मल (सं. 13618236पी अब जेसी-413338एक्स),  
20 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार लीला राम (सं. 13618266एम अब जेसी-413339ए),  
20 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार श्याम सिंह (सं. 13617543ए अब जेसी-413340पी),  
01 अक्टूबर 2008

हवलदार कोकितकर उत्तम विठ्ठल (सं. 13619008वाई अब जेसी-413341एक्स), 30 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 नवम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार परविन्द्र सिंह (सं. 2480333एक्स अब जेसी-413342ए),  
01 दिसम्बर 2008

हवलदार यशपौल (सं. 13617293के अब जेसी-413343एच),  
01 दिसम्बर 2008

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13617524पी अब जेसी-413344एल),  
05 अक्टूबर 2008

हवलदार रसूल मोहम्मद (सं. 13617570के अब जेसी-413345एन),  
15 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार बिलम राय (सं. 13618738एक्स अब जेसी-413347वाई),  
01 अक्टूबर 2008

हवलदार भीम बहादुर थापा (सं. 13618883पी अब जेसी-413348एफ),  
01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) चेतन राम डुडी (सं. 13618167के अब जेसी-  
413334एफ), 01 नवम्बर 2008

हवलदार (लिपिक) खादिम-उल-इस्लाम (सं. 13618168एम अब  
जेसी-413346डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008

मराठ लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कार्कूड बजरंग पांडुरंग (सं. 2783255पी अब जेसी-  
459951एच), 04 सितम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 07 मई 2008 से दी जाती है)

हवलदार पाटील संजीव राणबा (सं. 2785355वाई अब जेसी-  
459952एल), 25 जून 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

हवलदार सूरवसे विनायक राजाराम (सं. 2786760एच अब  
जेसी-459953एन), 06 दिसम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार रामा धामणेकर (सं. 2786346के अब जेसी-459955वाई),  
22 नवम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार थाटे नारायण तुकाराम (सं. 2786572एफ अब जेसी-  
459956एफ), 04 दिसम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार परशराम जाधव (सं. 2784338एम अब जेसी-459957के),  
21 नवम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार नारायण पाटील (सं. 2787453एक्स अब जेसी-459958एम),  
01 दिसम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार रईस खान (सं. 2788755डब्ल्यू अब जेसी-459959पी),  
01 दिसम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार पवार चंद्रभान पंढरीनाथ (सं. 2785996एल अब जेसी-  
459960के), 18 नवम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार सावंत नामदेव रामचंद्र (सं. 2789015एन अब जेसी-  
459961एम), 19 नवम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार मारुति पाटील (सं. 2787071एन अब जेसी-459962पी),  
11 नवम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार भाऊराव पाटील (सं. 2784599ए अब जेसी-459963एक्स),  
02 दिसम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार सावंत सुभाष बापू (सं. 2788996डब्ल्यू अब जेसी-  
459964ए), 05 दिसम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार सालोखे शशीकांत आनंदा (सं. 2786902पी अब जेसी-  
459965एच), 11 दिसम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार शिवयोगि तूप्पद (सं. 2785070एम अब जेसी-459966एल),  
01 दिसम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार भोसले सुरेश गुलाबराव (सं. 2784293एक्स अब जेसी-  
459967एन), 30 नवम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) रमेश प्रसाद गुप्ता (सं. 2783208एक्स अब जेसी-459954डब्ल्यू), 11 दिसम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

## जम्मू और काश्मीर राईफल्स

## नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार अजय कुमार (सं. 13753349एल अब जेसी-580790एन), 07 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार अशोक कुमार शर्मा (सं. 13751518एच अब जेसी-580791डब्ल्यू), 25 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार जीवन लाल बसोत्रा (सं. 4359438एल अब जेसी-580792वाई), 15 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार बीर सिंह (सं. 13753259के अब जेसी-580793एफ), 16 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार राजेश चन्द कटोच (सं. 13753290डब्ल्यू अब जेसी-580794के), 16 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार प्रेम सिंह वर्मा (सं. 13751180एच अब जेसी-580795एम), 02 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 13753295पी अब जेसी-580796पी), 17 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार भजन दास (सं. 13749646एफ अब जेसी-580797एक्स), 18 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 13752210एफ अब जेसी-580798ए), 22 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बलविन्द सिंह (सं. 13751831एन अब जेसी-580800एम), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार गुरजन्त सिंह (सं. 13751833वाई अब जेसी-580801पी), 18 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार विरेन्द्रा गुरुंग (सं. 13751069वाई अब जेसी-580818एच), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार दीपक कुमार गुरुंग (सं. 13751142एम अब जेसी-580802एक्स), 05 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार संजीव कुमार (सं. 13750384एच अब जेसी-580803ए), 16 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार उमर खान (सं. 13752158के अब जेसी-580804एच), 22 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 13749882एच अब जेसी-580805एल), 02 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार अर्जुन छत्री (सं. 13752330ए अब जेसी-580806एन), 01 नवम्बर 2008

हवलदार सुरिन्द्र सिंह (सं. 13750360वाई अब जेसी-580807डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 4358508एम अब जेसी-580808वाई), 01 नवम्बर 2008

हवलदार यशपाल सिंह (सं. 13750089ए अब जेसी-580809एफ), 01 नवम्बर 2008

हवलदार कमल सिंह पुनिया (सं. 13750093एच अब जेसी-580810डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

हवलदार राज पॉल (सं. 13750887एन अब जेसी-580811वाई), 03 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सुबाष सिंह (सं. 13750912वाई अब जेसी-580812एफ),  
01 नवम्बर 2008

हवलदार ईश्वर दास ठाकुर (सं. 13750919एल अब जेसी-580813के),  
11 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार मोहन लाल (सं. 13750924डब्ल्यू अब जेसी-580814एम),  
01 नवम्बर 2008

हवलदार रोमेश लाल (सं. 13750626ए अब जेसी-580815पी),  
01 नवम्बर 2008

हवलदार करतार सिंह पठानिया (सं. 13751892एल अब जेसी-  
580816एक्स), 01 नवम्बर 2008

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 13752161के अब जेसी-580817ए),  
01 नवम्बर 2008

हवलदार गोरख नाथ (सं. 13752260एम अब जेसी-580819एल),  
09 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लिपिक (जीडी) के रैंक में

हवलदार लिपिक मुरलि प्रकाशन एम (सं. 13751981के अब जेसी-  
580799एच), 15 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक शिव सिंह यादव (सं. 13751993वाई अब  
जेसी-580820ए), 01 दिसम्बर 2008

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 3179895ए अब जेसी-490385पी),  
19 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 3180656एक्स अब जेसी-490386एक्स),  
01 अक्टूबर 2008

हवलदार राजपाल सिंह (सं. 3180772ए अब जेसी-490387ए),  
03 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 3180668एम अब जेसी-490388एच),  
01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) ए वीरास्वामी (सं. 3179592एल अब जेसी-  
490389एल), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार (लिपिक) सुखदेव सिंह (सं. 3179658डब्ल्यू अब जेसी-  
490390ए), 01 दिसम्बर 2008

1 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार टोप बहादुर थापा (सं. 5040477एक्स अब जेसी-602800पी),  
23 सितम्बर 2008 \*

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2008)

हवलदार दान बहादुर थापा (सं. 5346365एफ अब जेसी-602807वाई),  
09 जुलाई 2008 \*

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून 2008)

हवलदार चिन्ता बहादुर थापा (सं. 5044003एच अब जेसी-  
602808एफ), 01 अगस्त 2008

हवलदार अर्जुन बहादुर गुरुंग (सं. 5044193ए अब जेसी-602809के),  
01 सितम्बर 2008 \*

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 06 अगस्त 2008)

हवलदार टेक बहादुर गुरुंग (सं. 5044235एफ अब जेसी-602810वाई),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार शमशेर बहादुर थापा (सं. 5044235एफ अब जेसी-  
602811एफ), 01 सितम्बर 2008

हवलदार सूरज बहादुर थापा (सं. 5044275एच अब जेसी-602812के),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार मिन बहादुर गुरुंग (सं. 5044145ए अब जेसी-602813एम),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार अमर बहादुर थापा (सं. 5044255पी अब जेसी-602814पी),  
26 सितम्बर 2008 \*

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2008)

हवलदार जयंत प्रसाद श्रेष्ठा (सं. 5044430वाई अब  
जेसी-602815एक्स), 18 अक्टूबर 2008 \*

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार चित्रा बहादुर गुरुंग (सं. 5044135डब्ल्यू अब जेसी-  
602816ए), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार गंगन सिंह गुरुंग (सं. 5044192एक्स अब जेसी-602817एच),  
01 अक्टूबर 2008

हवलदार अमर बहादुर थापा (सं. 5044158एक्स अब जेसी-  
602818एल), 01 नवम्बर 2008 \*

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार दल बहादुर थापा (सं. 5043819ए अब जेसी-602819एन),  
01 अक्टूबर 2008

हवलदार विनोद कुमार गुरुंग (सं. 5044133एल अब जेसी-602820एच), 12 नवम्बर 2008 \*

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2008)

हवलदार दान बहादुर गुरुंग (सं. 5044201एन अब जेसी-602821एल), 01 नवम्बर 2008

हवलदार कुशल सिंह गुरुंग (सं. 5044332वाई अब जेसी-602822एन), 30 दिसम्बर 2008 \*

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 13 अक्टूबर 2008)

हवलदार प्रेम बहादुर गुरुंग (सं. 5044183डब्ल्यू अब जेसी-602823डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार रतन बहादुर गुरुंग (सं. 5044202डब्ल्यू अब जेसी-602824वाई), 01 दिसम्बर 2008

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लिपिक सुरेंद्र पाल सिंह सिरौहि (सं. 2882510वाई अब जेसी-470363पी), 01 सितम्बर 2008

हवलदार लिपिक संतोश कुमार बिसवास (सं. 2882773एक्स अब जेसी-470364एक्स), 01 सितम्बर 2008

हवलदार लिपिक हीरा सिंह पूनिया (सं. 2882412वाई अब जेसी-470365ए), 03 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार मोहम्मद रसूल (सं. 2883177एक्स अब जेसी-470366एच), 10 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार करमवीर (सं. 2883099एच अब जेसी-470367एल), 03 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार क्रिशन पाल (सं. 2888111एल अब जेसी-470368एन), 08 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार देवेंद्र सिंह (सं. 2885716एफ अब जेसी-470369डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

हवलदार जय प्रकाश (सं. 2884178एम अब जेसी-470370एल), 05 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार मंदुप सिंह (सं. 2884760वाई अब जेसी-470371एन), 05 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रामपति सिंह चौहान (सं. 2884032वाई अब जेसी-470372डब्ल्यू), 02 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार गिर राज सिंह (सं. 2884577डब्ल्यू अब जेसी-470373वाई), 24 अक्टूबर 2008/07 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रंजीत सिंह (सं. 2885454डब्ल्यू अब जेसी-470374एफ), 19 नवम्बर 2008/28 सितम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

जे राय चौधरी  
अवर सचिव



## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 13th June 2009

## ARMY BRANCH

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL  
ENGINEERING

No 332, dated 08 May 2009—The President is pleased to appoint Shri Praveendra Pratap Singh to the grade of Assistant Executive Engineer with effect from 31 Mar 2008 (Forenoon) in the Corps of EME under Ministry of Defence.

He will remain on probation for a period of two years.

NK KASHMIRA  
Under Secretary

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL  
ENGR BRANCH

No. 333, dated 08 May 2009—The President is pleased to make the following appointment/promotion:—

To be Sub ARMR

Nb Sub Vachashpati Kumar Dwivedi (JC-758750W),  
07 Oct 2008/01 Oct 2008\*

Nb Sub Ramesh Chandra Joshi (JC-760107L), 01 Oct  
2008

To be Sub ARTZN (EC)

Nb Sub C Ajay Singh Narayansingh (JC-760104X),  
01 Oct 2008

Nb Sub Hare Ram Singh (JC-760097M), 01 Sep 2008

Nb Sub Ramkrishna Yadav (JC-760096K), 01 Sep 2008

Nb Sub Ramesh Chander (JC-759785Y), 01 Sep 2008

Nb Sub Resham Singh (JC-758078H), 01 Oct 2008

Nb Sub Jai Prakash (JC-759921K), 01 Oct 2008

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Kuldip Kumar (JC-755729H), 01 Oct 2008

Nb Sub Audhesh Kumar (JC-755731A), 01 Oct 2008

Nb Sub Nani Gopal Deb (JC-755422X), 01 Sep 2008

Nb Sub Bhawani Singh Rathore (JC-755622N), 01 Sep  
2008

Nb Sub Ran Bir Singh (JC-755420M), 01 Aug 2008

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-755791P), 01 Oct 2008

Nb Sub Biswanath Ghosh (JC-755730X), 01 Oct 2008

Nb Sub Vinay Kumar (JC-755794H), 01 Oct 2008

To be Sub DW

Nb Sub Naresh Chandra Malo (JC-760565F), 06 Oct  
2008/01 Sep 2008\*

Nb Sub Durbin Singh (JC-760563W), 01 Sep 2008

Nb Sub Sri Kant Kushwaha (JC-760509H), 01 Sep  
2008

Nb Sub Sube Ram Sharma (JC-760660N), 01 Sep 2008

Nb Sub Satya Narayan (JC-760508A), 01 Sep 2008

Nb Sub Kamaljit Singh (JC-760715M), 01 Oct 2008

Nb Sub Awadesh Singh (JC-760110L), 01 Oct 2008

Nb Sub Vinod Kumar Rawat (JC-760430A), 01 Sep  
2008/01 Aug 2008\*

To be Sub SKT

Nb Sub Kulendra Singh (JC-755425L), 04 Sep 2008/  
01 Sep 2008\*

Nb Sub Shashanka Ranjan Das (JC-755630M), 01 Sep  
2008

Nb Sub Charan Jit Singh (JC-755631P), 01 Sep 2008

Nb Sub Ramesh Chand (JC-755968X), 01 Oct 2008

Nb Sub Kuldip Singh (JC-755967P), 01 Oct 2008

Nb Sub Jageshwar Yadav (JC-756071A), 16 Oct 2008/  
01 Oct 2008\*

To be Sub Tech

Nb Sub Vijay Prasad (JC-757904L), 01 Sep 2008/  
01 Aug 2008\*

Nb Sub Ram Prakash Upadhyaya (JC-758075P), 01 Oct  
2008

Nb Sub Shashikant Shukla (JC-758014X), 01 Oct 2008

Nb Sub Gaikwad Shahji Yashwant (JC-758116N),  
11 Oct 2008/01 Oct 2008\*

Nb Sub Pramod Rai (JC-758199K), 01 Oct 2008

Nb Sub Surendra Singh (JC-758109X), 01 Oct 2008

Nb Sub Deen Dayal (JC-757903H), 04 Oct 2008/01 Oct  
2008\*

Nb Sub Ajit Singh (JC-758175A), 01 Oct 2008

Nb Sub Unni PD (JC-758108P), 01 Oct 2008

Nb Sub Subhash Chandra Dixit (JC-758201W), 01 Oct  
2008

Nb Sub Raj Kumar Das (JC-758024F), 01 Oct 2008

Nb Sub Hukam Singh Rawat (JC-757922N), 01 Sep 2008

Nb Sub Kailash Kumar Maheshwari (JC-758010F),  
01 Oct 2008

Nb Sub Govindan Kunnummal (JC-758196W), 01 Oct  
2008

Nb Sub Bhaskaran E (JC-758206P), 01 Oct 2008

Nb Sub Mata Prasad (JC-757913M), 01 Sep 2008

Nb Sub Shyam Singh (JC-757933A), 01 Sep 2008  
 Nb Sub Chitta Ranjan Das (JC-757961M), 01 Oct 2008  
 Nb Sub Arvind Kumar Sharma (JC-758103W), 01 Oct 2008  
 Nb Sub Rajendra Kumar Patel (JC-758018N), 01 Oct 2008  
 Nb Sub Siriparapu Venkataramana (JC-758054Y), 01 Oct 2008  
 Nb Sub Satish Chand (JC-758012M), 01 Oct 2008  
 Nb Sub Umesh Kumar (JC-758015A), 01 Oct 2008  
 Nb Sub Gokula Nanda Biswal (JC-758178N), 01 Oct 2008  
 Nb Sub Damodar Roy (JC-758118Y), 01 Oct 2008  
 Nb Sub Mahabir Prasad (JC-758034L), 01 Oct 2008  
 Nb Sub Krishna Pratap Singh (JC-758193H), 13 Oct 2008/01 Oct 2008\*  
 Nb Sub Pushkar Singh (JC-758117W), 01 Oct 2008  
 Nb Sub Patitapaban Nayak (JC-758111P), 01 Oct 2008  
 Nb Sub Mangesh Ganpat Chavan (JC-758072F), 01 Oct 2008

To be Sub Tech AVN

Nb Sub Balbir Singh (JC-757855N), 01 Sep 2008

\*(Gtd ante dated seniority)

N. K. KASHMIRA  
 Under Secy.

#### ARMY BRANCH

No. 334, dated 08 May 2009—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### INFANTRY

#### THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Subbiah T (No. 2594690A now JC-440089N), 12 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Jul 2008 without effect on pay and allces)

Hav Sanil Kumar KA (No. 2591543M now JC-440095F), 05 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jul 2008 without effect on pay and allces)

Hav Ravi KP (No. 2592652L now JC-440096K), 05 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Jul 2008 without effect on pay and allces)

Hav Surya Kumar S (No. 7430756K now JC-440101K), 03 Sep 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allces)

Hav Velagacherla Narasa Reddy (No. 2592456L now JC-440053P), 01 Aug 2008

Hav Valasa Ramana Moorthy (No. 2592467X now JC-440054X), 01 Aug 2008

Hav Biju G (No. 2594834X now JC-440068X), 01 Aug 2008

Hav Rajakumar TK (No. 2592828L now JC-440009L), 13 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allces)

Hav RM Karupiah (No. 2593644Y now JC-440026L), 11 Sep 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Apr 2008 without effect on pay and allces)

Hav Y Alexander (No. 2593225F now JC-440081F), 01 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 May 2008 without effect on pay and allces)

Hav C Mahadevan (No. 2589521P now JC-440076W), 19 Jul 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 May 2008 without effect on pay and allces)

Hav Ayyalusamy S (No. 2592735W now JC-440092N), 02 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun 2008 without effect on pay and allces)

Hav M Loganathan (No. 3391120L now JC-440100F), 15 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jun 2008 without effect on pay and allces)

#### JAK LI

To be Nb Subedar (GD CAT)

Hav Mohd Yasin Peer (No. 9087227P now JC-593672Y), 11 Jul 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008)

Hav Balkar Ram (No. 9087056N now JC-593673F), 19 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 27 May 2008)

Hav Mohd Ishfaq (No. 9086967X now JC-593674K), 18 Jul 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008)

Hav Mushtaq Hussain (No. 9087157F now JC-593675M), 27 Jul 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Jun 2008)

Hav Som Lal (No. 9087485P now JC-593676P), 19 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Jun 2008)

Hav Ram Lal (No. 9088889K now JC-593677X), 19 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jul 2008)

Hav Raj Krishan (No. 9087304X now JC-593679H), 29 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 May 2008)

Hav Haq Niwaz (No. 9086965M now JC-593680X), 23 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 27 May 2008)

Hav Vijay Kumar Saini (No. 9088303H now JC-593681A), 05 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Jun 2008)

Hav Mushtaq Ahmad Bhat (No. 9088708N now JC-593682H), 26 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008)

Hav Balwan Singh (No. 9087318Y now JC-593683L), 29 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008)

Hav Kuldeep Singh (No. 9088379H now JC-593684N), 29 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008)

Hav Mangal Dass (No. 9088590X now JC-593685W), 29 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008)

Hav Tarsheem Lal (No. 9088683M now JC-593686Y), 29 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008)

Hav Joginder Lal (No. 9088692N now JC-593687F), 29 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008)

Hav Dev Raj (No. 9085339W now JC-593690F), 29 Jun 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008)

Hav Joginder Singh (No. 9087136L now JC-593691K), 22 Sep 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008)

Hav Kuldip Singh (No. 9087312X now JC-593692M), 11 Jun 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008)

Hav Mohd Iqbal (No. 9088185A now JC-593693P), 05 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Jun 2008)

Hav Krishan Chand (No. 9088304L now JC-593694X), 01 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008)

Hav Mohd Bashir (No. 9088248X now JC-593695A), 01 Aug 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008)

Hav Chamail Singh (No. 9089585Y now JC-593698N), 30 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Jun 2008)

Hav Gurmeet Singh (No. 9089325N now JC-593699W), 30 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008)

Hav Mohmad Shefi Wani (No. 9088608H now JC-593700A), 30 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008)

Hav Mohd Rafiq (No. 9087705N now JC-593701H), 04 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008)

Hav Mohd Shafi (No. 9089046H now JC-593702L), 01 Sep 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008)

Hav Balbir Singh (No. 9087476N now JC-593703N), 01 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2008)

Hav Bal Krishan (No. 9087620X now JC-593704W), 01 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Gulzari Lal (No. 9088289F now JC-593705Y), 01 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Mohd Akber Sheikh (No. 9088542X now JC-593706F), 01 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Talib Din (No. 9088620K now JC-593707K), 13 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Mustaq Hussain (No. 9087326X now JC-593708M), 22 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Parladh Singh (No. 9088056A now JC-593709P), 15 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Tarsem Lal Saini (No. 9086740K now JC-593710K),  
14 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Subash Choudhary (No. 9087051P now JC-593711M), 14 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Raj Kumar (No. 9088873Y now JC-593712P),  
20 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Chain Singh (No. 9088983N now JC-593713X),  
20 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Mohd Maqbool Bhat (No. 9088432H now JC-593714A), 01 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Hardev Singh (No. 9089638M now JC-593715H),  
01 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Mohd Gafoor (No. 9088321L now JC-593716L),  
01 Nov 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Gurdyal Singh (No. 9087754M now JC-593717N),  
01 Nov 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008)

Hav Rajinder Singh (No. 9086957N now JC-593718W),  
30 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2008)

Hav Kuldev Singh (No. 9088389M now JC-593719Y),  
15 Nov 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008)

#### THE KUMAON REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Clk Resham Lal (No. 4180852W now JC-540431X),  
02 Jun 2008/01 Jun 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub Clk  
wef 01 Jun 2008 without effect pay and allowances)

Hav Clk Vinod Kumar Sharma (No. 4180918Y now JC-540432A), 11 Jun 2008/01 Jun 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub Clk  
wef 01 Jun 2008 without effect pay and allowances)

Hav Clk Mohan Singh (No. 4179956H now JC-540433H), 01 Jul 2008

Hav Clk Hoshiyar Singh (No. 4180031Y now JC-540450H), 01 Aug 2008

Hav Clk Chanchal Singh (No. 4180498K now JC-540451L), 01 Aug 2008

Hav Clk Tej Bahadur (No. 4180503K now JC-540452N),  
01 Aug 2008

Hav Clk Amar Singh (No. 4180485M now JC-540480A),  
08 Nov 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub Clk  
wef 01 Oct 2008 without effect pay and allowances)

Hav Clk Kundal Singh (No. 4180626W now JC-540481H), 06 Nov 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub Clk  
wef 01 Oct 2008 without effect pay and allowances)

Hav Clk Kheem Singh Mehara (No. 4180733X now JC-540482L), 07 Nov 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub Clk  
wef 01 Oct 2008 without effect pay and allowances)

Hav Clk Raghunath Pandey (No. 4180799N now JC-540483N), 06 Nov 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub Clk  
wef 01 Oct 2008 without effect pay and allowances)

Hav Clk Raj Pal (No. 2884097M now JC-540524M),  
15 Dec 2008/24 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub Clk  
wef 24 Nov 2008 without effect pay and allowances)

Hav Clk Bansi Dhar Barik (No. 4180917W now JC-540525P), 16 Jan 2009/01 Dec 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub Clk  
wef 01 Dec 2008 without effect pay and allowances)

Hav Nandan Singh Basera (No. 4180382N now JC-540506K), 16 Oct 2008/09 Sep 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
09 Sep 2008 without effect pay and allowances)

Hav Kedar Singh (No. 4178601L now JC-540507N), 23  
Nov 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2008 without effect pay and allowances)

Hav Dayal Singh (No. 4179798Y now JC-540508P),  
23 Nov 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2008 without effect pay and allowances)

Hav Prakash Singh (No. 4178859Y now JC-540509X),  
24 Nov 2008/01 Sep 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Sep 2008 without effect pay and allowances)

Hav Mukesh (No. 4182767K now JC-540510M), 27 Nov  
2008/01 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Nov 2008 without effect pay and allowances)

Hav Raghubir Singh (No. 2884126W now JC-540511P),  
27 Nov 2008/01 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Nov 2008 without effect pay and allowances)

Hav Bhagwan Singh (No. 4179942H now JC-540512X),  
01 Dec 2008/02 Aug 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
02 Aug 2008 without effect pay and allowances)

Hav Dev Datt Singh Yadav (No. 4180456X now JC-  
540513A), 02 Dec 2008/01 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Nov 2008 without effect pay and allowances)

Hav Dinesh Singh Yadav (No. 4180851L now JC-  
540514H), 30 Nov 2008/01 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Nov 2008 without effect pay and allowances)

Hav Girdhari Lal Yadav (No. 4182152Y now JC-  
540515L), 30 Nov 2008/01 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Nov 2008 without effect pay and allowances)

Hav Surender Singh (No. 4183467P now JC-540516N),  
29 Nov 2008/01 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Nov 2008 without effect pay and allowances)

Hav Lalit Singh (No. 4181546L now JC-540517W),  
01 Dec 2008

Hav Vijay Singh (No. 4179850W now JC-540518Y),  
02 Dec 2008/01 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Nov 2008 without effect pay and allowances)

Hav Jagat Singh (No. 4180033K now JC-540519F),  
04 Dec 2008/01 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Nov 2008 without effect pay and allowances)

Hav Sukhbir Singh (No. 4182570N now JC-540520W),  
08 Dec 2008/01 Dec 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Dec 2008 without effect pay and allowances)

Hav Anand Singh Fartiyal (No. 4180671H now JC-  
540521Y), 10 Dec 2008/01 Dec 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Dec 2008 without effect pay and allowances)

Hav Sunder Singh (No. 4180582F now JC-540522F),  
19 Dec 2008/07 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
07 Oct 2008 without effect pay and allowances)

Hav Devendra Prasad (No. 4183013F now JC-540523K),  
20 Dec 2008/11 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
11 Nov 2008 without effect pay and allowances)

Hav Lal Bahadur (No. 4180372K now JC-540484W),  
15 Oct 2008/09 Sep 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
09 Sep 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Govind Singh (No. 13615616H now JC-540494A),  
07 Nov 2008/04 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
04 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Sher Singh (No. 4179081X now JC-540495H),  
07 Nov 2008/01 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Sarju Ram (No. 4181161N now JC-540486F),  
18 Oct 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Bane Singh (No. 4181221X now JC-540487K),  
18 Oct 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Shree Ram (No. 4181223H now JC-540488M),  
18 Oct 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Sunder Singh (No. 4178035W now JC-540492P),  
06 Nov 2008/08 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
08 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Harish Chandra Joshi (No. 4178426F now JC-  
540496L), 09 Nov 2008/01 Oct 2008\*

Hav Tej Singh (No. 4179021H now JC-540497N),  
09 Nov 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Mahesh Singh Bisht (No. 4181628N now JC-  
540498W), 09 Nov 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Govind Singh (No. 4180021P now JC-540499Y),  
09 Nov 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Madan Singh (No. 4180651P now JC-540485Y),  
18 Oct 2008/20 Sep 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
20 Sep 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Rajive Kumar Yadav (No. 4182273A now JC-  
540501L), 11 Nov 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Mukhtiyar Singh (No. 4180037A now JC-540490K),  
05 Nov 2008/01 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Katar Singh (No. 4180136H now JC-540491M),  
05 Nov 2008/01 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Birendra Kumar Singh (No. 4180957X now JC-  
540503W), 17 Nov 2008/28 Sep 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
28 Sep 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Pooran Singh (No. 4178531X now JC-540504Y),  
17 Nov 2008/26 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
26 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Govind Ballabh (No. 4180656N now JC-540500H),  
10 Nov 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Surender Kumar (No. 4180414L now JC-540505F),  
17 Nov 2008/03 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
03 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Dev Singh (No. 4180154L now JC-540493X),  
06 Nov 2008/01 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Kailash Chandra (No. 4178563A now JC-540489P),  
23 Oct 2008/01 Aug 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Aug 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Trilok Singh (No. 4183162P now JC-540502N),  
14 Nov 2008/01 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

## THE PUNJAB REGIMENT

### To be Naib Sudedars

Hav Bawa Ram (No. 2476091H now JC-430464A), 02 Dec  
2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Dec 2008 without  
effect on pay and allowances).

Hav Gulzar Singh Saini (No. 2478873X now JC-  
430465H), 01 Dec 2008

Hav Manohar Lal (No. 2480284A now JC-430466L),  
02 Dec 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Dec 2008 without  
effect on pay and allowances).

Hav Mohinder Singh (No. 2479388P now JC-430467N),  
01 Dec 2008

Hav Lakhbir Singh (No. 2479805W now JC-430455Y),  
27 Oct 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 13 Sep 2008 without  
effect on pay and allowances).

Hav Pawan Kumar (No. 2482737Y now JC-430456F),  
21 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Oct 2008 without  
effect on pay and allowances).

Hav Surinder Singh (No. 2480426M now JC-430457K),  
20 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Nov 2008 without  
effect on pay and allowances).

Hav Kulwant Singh (No. 2479121A now JC-430458M),  
07 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Nov 2008 without  
effect on pay and allowances).

Hav Tirath Ram (No. 2481783F now JC-430459P), 01 Dec  
2008

Hav Sukhjinder Singh (No. 2479835N now JC-430460K),  
01 Dec 2008

Hav Madan Lal (No. 2479230M now JC-430461M),  
01 Dec 2008

### To be Naib Subedar Clerks

Hav Clk Jadhawar Sumant Prabhu (No. 2480702K now  
JC-430454W), 17 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Nov 2008 without  
effect on pay and allowances).

Hav Clk Nabin Kumar Patnaik (No. 2479917W now JC-  
430462P), 04 Dec 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Dec 2008 without  
effect on pay and allowances).

Hav Clk Bhupinder Singh Verma (No. 2478217W now JC-430463X), 15 Dec 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Arun Kumar Socrates (No. 15359334X now JC-430468W), 02 Jan 2009\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Ramadasan SM (No. 2479912X now JC-430469Y), 01 Jan 2009

Hav Clk Raju N (No. 2480691H now JC-430470N), 01 Jan 2009

#### To be Naib Sudedars

Hav Ram Krishan Kaundal (No. 2478859L now JC-430471W), 10 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Sher Singh (No. 2479246X now JC-430472Y), 29 Dec 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Naresh Kumar (No. 2479206W now JC-430473F), 10 Nov 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 21 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Jasbir Singh (No. 2478578P now JC-430474K), 11 Dec 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Kuljit Singh (No. 2479095K now JC-430475M), 27 Dec 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 30 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (No. 2478728A now JC-430476P), 22 Dec 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Baldev Singh (No. 2478139K now JC-430477X), 24 Dec 2008\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Gurmail Singh (No. 2479755W now JC-430478A), 01 Jan 2009

#### THE BIHAR REGIMENT

(To be Naib Subedar (GD/Clk))

Hav Ram Niwas Singh Yadav (No. 4263590F now JC-560104N), 02 Dec 2008/01 Oct 2008(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

CHM Anil Kumar (No. 4267318M now JC-560105W), 11 Dec 2008/01 Oct 2008(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Surendra Prasad Yadav (No. 4267333F now JC-560106Y), 19 Dec 2008/01 Oct 2008(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Narendra Chaubey (No. 4265971F now JC-560107F), 18 Dec 2008/01 Oct 2008(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Jai Nath Mehli (No. 4267760X now JC-560108K), 06 Dec 2008/26 Oct 2008(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Billu Singh (No. 4264495F now JC-560109M), 14 Nov 2008/01 Nov 2008(Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Sanjai Kumar Singh (No. 4264989L now JC-560110F), 20 Nov 2008/01 Nov 2008(Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Umesh Kumar Singh (No. 4267343L now JC-560111K), 15 Dec 2008/02 Nov 2008(Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Meghnath Singh (No. 4264553A now JC-560112M), 01 Dec 2008

Hav/Clk Ram Ugrah Ram (No. 15359617Y now JC-560113P), 01 Dec 2008

Hav/Clk Harjeet Singh (No. 4265921W now JC-560114X), 01 Dec 2008

Hav/Musn Shashi Bhushan Prasad Singh Kiran (No. 4263488Y now JC-560130P), 10 Jan 2009/20 Aug 2008 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Aug 2008 without effect on pay and allowances).

CHM Shree Bhagwan Singh (No. 4264255K now JC-560131X), 07 Jan 2009/05 Oct 2008 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

CHM Krishna Kumar Mishra (No. 4264525N now JC-560132A), 07 Jan 2009/05 Oct 2008 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Vishnath Minj (No. 4268408A now JC-560133H),  
07 Jan 2009/05 Oct 2008 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Kulan Horo (No. 4268414N now JC-560134L),  
07 Jan 2009/05 Oct 2008 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Ratnakar Hasda (No. 4266251M now JC-560135N),  
27 Jan 2009/15 Oct 2008 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Pandu Ram Purty (No. 4270840A now JC-560136W), 27 Jan 2009/15 Oct 2008 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Lalit Toppo (No. 4267387H now JC-560137Y),  
04 Jan 2009/12 Dec 2008 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Dec 2008 without effect on pay and allowances).

CHM Suban Toppo (No. 4266053F now JC-560138F),  
03 Jan 2009/14 Dec 2008 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Dec 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Charo Oraon (No. 4269371W now JC-560139K),  
05 Jan 2009/01 Jan 2009 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances).

#### THE DOGRA REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Lekh Raj (No. 3984009W now JC-520927L), 02 Jan 2009+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 14 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Satish Kumar (No. 3988502F now JC-520928N),  
27 Oct 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 28 Sep 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Suraj Parkash (No. 3988543L now JC-520929W),  
24 Dec 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Swaroop Singh (No. 3986704K now JC-520930L),  
06 Jan 2009+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Singh (No. 3986429P now JC-520931N),  
17 Dec 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Kumar (No. 3987420M now JC-520932W),  
17 Dec 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Kumar (No. 3987712P now JC-520933Y),  
20 Dec 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Bali Ram (No. 3987744X now JC-520934F), 20 Dec 2008--

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Parkash Chand (No. 3987267F now JC-520935K),  
03 Jan 2009+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Chhaju Ram (No. 3986815F now JC-520936M),  
06 Jan 2009+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 05 Dec 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Barjang Singh (No. 3987385P now JC-520937P),  
06 Jan 2009+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances).

Hav Kewal Singh (No. 3987780H now JC-520938X), 12 Jan 2009+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances).

Hav Vidya Sagar (No. 3987877N now JC-520939A), 12 Jan 2009+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances).

Hav Madan Lal Thakur (No. 3988018P now JC-520940P),  
12 Jan 2009+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances).

Hav Inder Raj (No. 3987090Y now JC-520909H), 05 Oct 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Gian Chand (No. 3988270N now JC-520910X), 17 Nov 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 23 Aug 2008 without effect on pay and allowances).



Hav Daulat Ram (No. 3988280X now JC-520911A),  
12 Dec 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
29 Aug 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Kumar (No. 3987769K now JC-520912H),  
05 Dec 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Sep 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Surender Kumar (No. 3987599L now JC-520913L),  
10 Nov 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Sep 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Rajinder Singh (No. 3988204L now JC-520914N),  
01 Dec 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Sep 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Surinder Singh Kanwar (No. 3985824W now JC-  
520915W), 05 Dec 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
16 Sep 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Praveen Singh (No. 3180278K now JC-520916Y),  
28 Nov 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Surinder Singh (No. 3986543M now JC-520917F),  
12 Nov 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Chand (No. 3988275M now JC-520918K),  
13 Nov 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Pardeep Singh (No. 3987011Y now JC-520919M),  
18 Nov 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Tarsem Singh (No. 3987064X now JC-520920F),  
18 Nov 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Parmesh Singh (No. 3987209X now JC-520921K),  
18 Nov 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Kuldeep Singh (No. 3987377W now JC-520922M),  
18 Nov 2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Kumar (No. 3391408L now JC-520923P), 01 Dec  
2008+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Padam Singh (No. 3985889K now JC-520924X), 01  
Dec 2008

Hav Kewal Krishan (No. 3986418H now JC-520925A),  
01 Dec 2008

Hav Manjit Singh Jamwal (No. 3988309P now JC-  
520926H), 01 Dec 2008

#### THE ASSAM REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Ashok Kumar Singh (No. 4360537A now JC-  
549695A), 26 Sep 2008/01 Apr 2008\*

Hav Kul Bahadur Chhetri (No. 4358324N now JC-  
549705Y), 14 Aug 2008/01 Jul 2008\*

Hav Purna Kalita (No. 4360353F now JC-549723F),  
05 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Hav Nameirakpam Okendrajit Singh (No. 4360612Y now  
JC-549724K), 09 Oct 2008/01 Aug 2008\*

Hav Samaren Narjary (No. 2591441W now JC-549727X),  
15 Oct 2008/01 Aug 2008\*

Hav Lalpianthara (No. 4359538Y now JC-549728A),  
01 Aug 2008

Hav NG Negendra Singha (No. 4360282L now JC-  
549735W), 27 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Hav Dilip Kumar Ray (No. 4359275H now JC-549740F),  
06 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Hav Gokul Dehingia (No. 4360366Y now JC-549746H),  
22 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Hav Abdul Hussain Choudhury (No. 4360607N now JC-  
549747L), 22 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Hav Trailukya Deka (No. 4360699L now JC-549748N),  
22 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Hav L Shyam Kumar Singh (No. 4360732X now JC-  
549749W), 22 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Hav Tek Bahadur Thapa (No. 4360890M now JC-  
549750L), 22 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Hav Deva Kt Mahanta (No. 2591438W now JC-  
549753Y), 12 Nov 2008/14 Oct 2008\*

Hav Bharat Baishya (No. 4359421X now JC-549760P),  
03 Dec 2008/01 Sep 2008\*

Hav Deepak Thakuri (No. 4358391Y now JC-549772K),  
21 Oct 2008/01 Oct 2008\*

Hav Man Bahadur Thapa (No. 4359167Y now JC-549774P), 21 Oct 2008/01 Oct 2008\*

Hav Sushanta Sinha (No. 4358321A now JC-549775X), 27 Dec 2008/01 Oct 2008\*

Hav Jatin Borgohain (No. 4359622W now JC-549776A), 10 Oct 2008/01 Oct 2008\*

Hav Dharani Deka (No. 4359686F now JC-549778L), 03 Nov 2008/01 Oct 2008\*

Hav Dhan Bahadur Thapa (No. 4359784F now JC-549779N), 22 Oct 2008/01 Oct 2008\*

Hav Bhabesh Roy (No. 4359808A now JC-549780H), 22 Oct 2008/01 Oct 2008\*

Hav Prabin Kumar Dass (No. 4359630P now JC-549781L), 05 Nov 2008/01 Oct 2008\*

Hav W Brojeswar Singha (No. 4360185N now JC-549782N), 01 Nov 2008/01 Oct 2008\*

Hav I Ashok Kumar Singha (No. 4360387P now JC-549784Y), 01 Dec 2008/01 Oct 2008\*

Hav Amalesh Chandra Nath (No. 4359753F now JC-549787M), 01 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Hav Dhaneswar Ray (No. 4359877W now JC-549788P), 01 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Hav Bishnu Kataki (No. 4359662X now JC-549794H), 26 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Hav Prabhat Chandra Das (No. 4360425A now JC-549796N), 01 Dec 2008/01 Nov 2008\*

Hav Putul Chandra Nath (No. 4360723W now JC-549798Y), 01 Dec 2008/01 Nov 2008\*

Hav Suresh Sarma (No. 4359818K now JC-549808X), 06 Dec 2008/01 Dec 2008\*

Hav Bantu Sangma (No. 4360052X now JC-549809A), 27 Dec 2008/01 Dec 2008\*

Hav Churles U Marak (No. 4358925Y now JC-549810P), 01 Dec 2008/01 Dec 2008\*

Hav K. Ashikho Mao (No. 4359149W now JC-549811X), 17 Dec 2008/01 Dec 2008\*

Hav Parimal Barman (No. 4359745H now JC-549813H), 01 Dec 2008/01 Dec 2008\*

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Jhannu Singh Yadava (No. 4358382X now JC-549771F), 06 Nov 2008/01 Oct 2008\*

Hav/Clk Ravi Chandran R (No. 4359198Y now JC-549814L), 01 Dec 2008/01 Dec 2008\*

\*(Seniority wef without effect on pay and allowances)

## THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Onkar Singh (No. 2682318L now JC-450574W), 12 May 2008

Hav Anil Kumar (No. 2681653H now JC-450575Y), 01 Jun 2008

Hav Govind Singh Baniwal (No. 2682327M now JC-450576F), 31 Jul 2008\*

\*(Gtd seniority wef 13 Jul 2008 without effect on pay and allces)

Hav Shri Bhagwan (No. 2680265Y now JC-450577K), 01 Sep 2008

Hav Biram Parkash (No. 2683597N now JC-450578M), 01 Sep 2008

Hav Vijay Pal Singh (No. 2680835K now JC-450579P), 01 Sep 2008

Hav Jagbir Singh (No. 2681506A now JC-450580K), 01 Sep 2008

Hav Raj Pal Singh (No. 2680710M now JC-450581M), 01 Sep 2008

Hav Baljit (No. 2681352Y now JC-450582P), 01 Sep 2008

Hav Anang Pal (No. 2680846W now JC-450583X), 01 Sep 2008

Hav Rakesh Singh Kushwah (No. 2682038X now JC-450584A), 01 Sep 2008

Hav Karambir Singh (No. 2680540N now JC-450585H), 01 Sep 2008

Hav Devi Singh Bhati (No. 2681252N now JC-450586L), 01 Sep 2008

Hav Sukha Ram (No. 2681984K now JC-450587N), 01 Sep 2008

Hav Shiv Kumar (No. 8031598P now JC-450588W), 01 Sep 2008

Hav Ashok Kumar (No. 2884360M now JC-450589Y), 16 Dec 2008

\*(Gtd seniority wef 02 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Yogender Narayan Singh (No. 2680554N now JC-450590N), 07 Sep 2008

Hav Abhey Singh (No. 2678991P now JC-450591W), 08 Sep 2008

Hav Mai Ram (No. 2680271M now JC-450592Y), 19 Sep 2008

To be Nb Sub (Clk)

Hav Yogendra Singh (No. 2680323X now JC-450593F), 01 Oct 2008

Hav Shaikh Samiullah Zafarullah (No. 15359222X now JC-450594K), 01 Oct 2008

# THE PARACHUTE REGIMENT

## To be Nb Sub

Hav Ashoka Kumar Patnaik (No. 13616445N now JC-413331N), 24 Oct 2008\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Munesh Pal Singh (No. 13617898L now JC-413332W), 24 Oct 2008\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Hukam Singh (No. 13617990K now JC-413333Y), 01 Nov 2008

Hav More Mansa Ram Jagannath (No. 2788592N now JC-413335K), 07 Nov 2008\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Aug 2008)

Hav Bharat Singh (No. 4070096K now JC-413336M), 01 Oct 2008

Hav Naresh Kumar (No. 13617361M now JC-413337P), 20 Oct 2008\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allowances wef 05 Oct 2008)

Hav Jhabar Mal (No. 13618236P now JC-413338X), 20 Nov 2008\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Nov 2008)

Hav Leela Ram (No. 13618266M now JC-413339A), 20 Nov 2008\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Nov 2008)

Hav Shyam Singh (No. 13617543A now JC-413340P), 01 Oct 2008

Hav Kokitkar Uttam Vitthal (No. 13619008Y now JC-413341X), 30 Sep 2008\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allowances wef 11 Nov 2007)

Hav Parwinder Singh (No. 2480333X now JC-413342A), 01 Dec 2008

Hav Yashpaul (No. 13617293K now JC-413343H), 01 Dec 2008

Hav Ashok Kumar (No. 13617524P now JC-413344L), 05 Oct 2008

Hav Rasool Mohammad (No. 13617570K now JC-413345N), 15 Nov 2008\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Bimal Rai (No. 13618738X now JC-413347Y), 01 Oct 2008

Hav Bhim Bahadur Thapa (No. 13618883P now JC-413348F), 01 Oct 2008

## To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Chetan Ram Dudi (No. 13618167K now JC-413334F), 01 Nov 2008

Hav/Clk Khadem Ul Islam (No. 13618168M now JC-413346W), 01 Dec 2008

# THE MARATHA LI

## To be Nb Sub

Hav Karkud Bajarang Pandurang (No. 2783255P now JC-459951H), 04 Sep 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 07 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Sanjiv Ranaba (No. 2785355Y now JC-459952L), 25 Jun 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Surwase Vinayak Rajaram (No. 2786760H now JC-459953N), 06 Dec 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Rama Dhamanekar (No. 2786346K now JC-459955Y), 22 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Tathe Narayan Tukaram (No. 2786572F now JC-459956F), 04 Dec 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Parasharam Jadhav (No. 2784338M now JC-459957K), 21 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Narayan Patil (No. 2787453X now JC-459958M), 01 Dec 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Raese Khan (No. 2788755W now JC-459959P), 01 Dec 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Pawar Chandrabhan Pandharinath (No. 2785996L now JC-459960K), 18 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Sawant Namdev Ramchandra (No. 2789015N now JC-459961M), 19 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Maruti Patil (No. 2787071N now JC-459962P), 11 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bhaurao Patil (No. 2784599A now JC-459963X), 02 Dec 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Sawant Subhash Babu (No. 2788996W now JC-459964A), 05 Dec 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Salokhe Shashikant Ananda (No. 2786902P now JC-459965H), 11 Dec 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Shivayogi Tuppad (No. 2785070M now JC-459966L), 01 Dec 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bhosale Suresh Gulabrao (No. 2784293X now JC-459967N), 30 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Ramesh Prasad Gupta (No. 2783208X now JC-459954W), 11 Dec 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

JAK RIF

To be Substantive Nb Sub (GD)

Hav Ajay Kumar (No. 13753349L now JC-580790N), 07 Oct 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2008)

Hav Ashok Kumar Sharma (No. 13751518H now JC-580791W), 25 Aug 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2008)

Hav Jeewan Lal Basotra (No. 4359438L now JC-580792Y), 15 Oct 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2008)

Hav Beer Singh (No. 13753259K now JC-580793F), 16 Oct 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2008)

Hav Rajesh Chand Katoch (No. 13753290W now JC-580794K), 16 Oct 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2008)

Hav Prem Singh Verma (No. 13751180H now JC-580795M), 02 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 03 Aug 2008)

Hav Sukhdev Singh (No. 13753295P now JC-580796P), 17 Oct 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 28 Aug 2008)

Hav Bhajan Dass (No. 13749646F now JC-580797X), 18 Oct 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2008)

Hav Bhadur Singh (No. 13752210F now JC-580798A), 22 Oct 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 06 Sep 2008)

Hav Balwinder Singh (No. 13751831N now JC-580800M), 01 Oct 2008

Hav Gurjant Singh (No. 13751833Y now JC-580801P), 18 Oct 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Virendra Gurung (No. 13751069Y now JC-580818H), 01 Oct 2008

Hav Deepak Kumar Gurung (No. 13751142M now JC-580802X), 05 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Sanjeev Kumar (No. 13750384H now JC-580803A), 16 Oct 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Umar Khan (No. 13752158K now JC-580804H), 22 Oct 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Suresh Kumar (No. 13749882H now JC-580805L), 02 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2008)

Hav Arjun Chattri (No. 13752330A now JC-580806N),  
01 Nov 2008

Hav Surinder Singh (No. 13750360Y now JC-580807W),  
01 Nov 2008

Hav Balwant Singh (No. 4358508M now JC-580808Y),  
01 Nov 2008

Hav Yash Pal Singh (No. 13750089A now JC-580809F),  
01 Nov 2008

Hav Kamal Singh Pinia (No. 13750093H now JC-  
580810W), 01 Nov 2008

Hav Raj Paul (No. 13750887N now JC-580811Y), 03 Nov  
2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Nov 2008)

Hav Subash Singh (No. 13750912Y now JC-580812F),  
01 Nov 2008

Hav Ishwar Dass Thakur (No. 13750919L now JC-  
580813K), 11 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Nov 2008)

Hav Mohan Lal (No. 13750924W now JC-580814M),  
01 Nov 2008

Hav Romesh Lal (No. 13750626A now JC-580815P),  
01 Nov 2008

Hav Kartar Singh Pathania (No. 13751892L now JC-  
580816X), 01 Nov 2008

Hav Sukhdev Singh (No. 13752161K now JC-580817A),  
01 Nov 2008

Hav Gorkh Nath (No. 13752260M now JC-580819L),  
09 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Nov 2008)

To be Substantive Nb Sub Clk (GD)

Hav Clk Murali Prakashan M (No. 13751981K now JC-  
580799H), 15 Oct 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Clk Shiv Singh Yadav (No. 13751993Y now JC-  
580820A), 01 Dec 2008

#### THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Raj Kumar Singh (No. 3179895A now JC-490385P),  
19 Nov 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008  
without effect on pay and allowances)

Hav Narender Singh (No. 3180656X now JC-490386X),  
01 Oct 2008

Hav Rajpal Singh (No. 3180772A now JC-490387A),  
03 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008  
without effect on pay and allowances)

Hav Surender Singh (No. 3180668M now JC-490388H),  
01 Nov 2008

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk A Veerasamy (No. 3179592L now JC-490389L),  
01 Dec 2008

Hav Clk Sukhdev Singh (No. 3179658W now JC-  
490390A), 01 Dec 2008

1 GR

To be Nb Sub

Hav Top Bahadur Thapa (No. 5044077X now JC-  
602800P), 23 Sep 2008\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Feb 2008)

Hav Dan Bahadur Thapa (No. 5346365F now JC-  
602807Y), 09 Jul 2008\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jun 2008)

Hav Chinta Bahadur Thapa (No. 5044003H now JC-  
602808F), 01 Aug 2008

Hav Arjun Bahadur Gurung (No. 5044193A now JC-  
602809K), 01 Sep 2008\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 06 Aug  
2008)

Hav Tek Bahadur Gurung (No. 5044235F now JC-  
602810Y), 01 Sep 2008

Hav Shamser Bahadur Thapa (No. 5044237M now JC-  
602811F), 01 Sep 2008

Hav Suraj Bahadur Thapa (No. 5044275H now JC-  
602812K), 01 Sep 2008

Hav Min Bahadur Gurung (No. 5044145A now JC-  
602813M), 01 Sep 2008

Hav Amar Bahadur Thapa (No. 5044255P now JC-  
602814P), 26 Sep 2008\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Sep 2008)

Hav Jayant Prasad Shrestha (No. 5044430Y now JC-  
602815X), 18 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct 2008)

Hav Chitra Bahadur Gurung (No. 5044135W now JC-  
602816A), 01 Oct 2008

Hav Gagan Singh Gurung (No. 5044192X now JC-  
602817H), 01 Oct 2008

Hav Amar Bahadur Thapa (No. 5044158X now JC-  
602818L), 01 Nov 2008\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct 2008)

Hav Dal Bahadur Thapa (No. 5043819A now JC-602819N), 01 Oct 2008

Hav Vinod Kumar Gurung (No. 5044133L now JC-602820H), 12 Nov 2008\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Nov 2008)

Hav Dan Bahadur Gurung (No. 5044201N now JC-602821L), 01 Nov 2008

Hav Kushal Singh Gurung (No. 5044332Y now JC-602822N), 30 Dec 2008\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 13 Oct 2008)

Hav Prem Bahadur Gurung (No. 5044183W now JC-602823W), 01 Dec 2008

Hav Ratan Bahadur Gurung (No. 5044202W now JC-602824Y), 01 Dec 2008

#### THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav/Clk Surender Pal Singh Sirohi (No. 2882510Y now JC-470363P), 01 Sep 2008

Hav/Clk Santosh Kumar Biswas (No. 2882773X now JC-470364X), 01 Sep 2008

Hav/Clk Hira Singh Poonia (No. 2882412Y now JC-470365A), 03 Sep 2008/01 Sep 2008(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Mohd Rasool (No. 2883177X now JC-470366H), 10 Sep 2008/01 Sep 2008(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Karambir (No. 2883099H now JC-470367L), 03 Sep 2008/01 Sep 2008(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Krishan Pal (No. 2888111L now JC-470368N), 08 Sep 2008/01 Sep 2008(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Devendra Singh (No. 2885716F now JC-470369W), 01 Sep 2008

Hav Jai Prakash (No. 2884178M now JC-470370L), 05 Sep 2008/01 Sep 2008(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Mandrop Singh (No. 2884760Y now JC-470371N), 05 Sep 2008/01 Sep 2008(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Ramapati Singh Chauhan (No. 2884032Y now JC-470372W), 02 Sep 2008/01 Sep 2008(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Gir Raj Singh (No. 2884577W now JC-470373Y), 24 Oct 2008/07 Sep 2008(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Ranjeet Singh (No. 2885454W now JC-470374F), 19 Nov 2008/28 Sep 2008(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Sep 2008 without effect on pay and allces)

J ROY CHOWDHURY  
Under Secy.